

No. 17433

**THAILAND
and
INDIA**

**Agreement on the delimitation of seabed boundary between
the two countries in the Andaman Sea (with chart and
exchange of notes). Signed at New Delhi on 22 June
1978**

*Authentic texts: Thai, Hindi and English.
Registered by Thailand on 8 January 1979.*

**THAÏLANDE
et
INDE**

**Accord relatif à la délimitation des fonds marins entre les
deux pays dans la mer d'Andaman (avec carte marine et
échange de notes). Signé à New Delhi le 22 juin 1978**

*Textes authentiques : thaï, hindi et anglais.
Enregistré par la Thaïlande le 8 janvier 1979.*

[THAI TEXT — TEXTE THAÏ]

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
ว่าด้วยการเผยแพร่กฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองในพระเจตน์ความมั่น

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

ที่ด้วยความปรารถนาที่จะกระชับสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศทั้งสอง และ

ที่ด้วยความปรารถนาที่จะสถาปนาเชิงกันระหว่างประเทศทั้งสองในพระเจตน์ความมั่น
และที่จะตกลงกันให้เป็นการถาวรสืบสานความซึ้งสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่จะดำเนิน
ต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ได้ตกลงดังที่ต่อไปนี้

๑๙

๑. เสนอเชิงกันระหว่างประเทศไทยและอินเดียในพระเจตน์ความมั่น
ประกอบทั่วไป เสนอทรงที่เรื่องมากรุก ๑ และ ๒, ๒ และ ๓, ๓ และ ๔, ๔ และ ๕,
๕ และ ๖, ๖ และ ๗ และ ๘

๒. ให้ก็ของรุกเหล่านี้ให้รัฐมุไวน์กังฟ์ไปนี้

<u>อักษรไทย</u>	<u>อักษรจีน</u>
รุก ๑ ๐๑ ๔๔ ๐๐" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๔" กะวันออก	
รุก ๒ ๐๑ ๔๔ ๐๐" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๔" กะวันออก	
รุก ๓ ๐๑ ๔๔ ๔๔" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๔" กะวันออก	
รุก ๔ ๐๑ ๑๐ ๔๔" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๔" กะวันออก	
รุก ๕ ๐๑ ๔๔ ๔๔" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๔" กะวันออก	
รุก ๖ ๐๑ ๔๔ ๐๔" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๐" กะวันออก	
รุก ๗ ๐๑ ๑๐ ๔๔" เหนือ ๔๔ ๑๒ ๔๔" กะวันออก	

३८५

ԱՌԱՋԱԿԱՆ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ
ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ ՎՐԱՅԻ

४८

Դաշտավայրում առաջին անգամ հայությունը կազմվել է 1918 թվականի մայիսի 2-ին՝ Ադրբեյջանի պատմական մասում՝ Աղստավ գյուղու մոտական վայրում:

Հայութեաց առաջնորդութիւնը կազմութիւն է հայութեաց առաջնորդութիւնը և առաջնորդութիւնը ։

四

ՏԵՐԵԼՄԱՆ ՊԱՍՏՈՒԹՅԱՆ

Եղիշերաբ լուստը պայուղ ականչէքթեռնիչք Եղիշեր վեցուայոցք պայուղ
ականչէքթեռնիչք վերաբերելու հոգեւուայտութեան ուժութեան ուժութեան ։

ຂໍ້ຕ.

ຂ້ອກທານໄກ ຈະ ຮະຫວ່າງຮູບນາຄທັງສອງ ທີ່ເປົ້າພັກການທີ່ຄວາມນ້ອກການດໍາເນີນການ
ໃໝ່ເປັນຍອດການກວ່ານົກລອງນີ້ຈະຢູ່ກະຈຸນໂຄຍຕົນທີ່ ໂດຍການປົງການຫາວິທີ ນ້ອກການເຊົາ

ຂໍ້ຕ.

ກວ່ານົກລອງນີ້ຈະໄກ້ຮັບການຮັດຍານັກງານແນ່ການຮູ່ຂະຮຽນນູ້ອຸ້ນທີ່ແຫດລະປະເທດ
ຄວາມຕາກລອງນີ້ຈະນີ້ມີຄືໃຫ້ມັກຄົມໃນວັນທີແລກເປົ້າລົ່ຽນສັກຍານັ້ນສາງກັນ ຊຶ່ງຈະກະຫຼາດ ດ ກຸງເທດ ຈ
ໂຄບເວົ້າເຫຼົ່າທີ່ຈະກະຫຼາໄກ້

ເພື່ອເປັນພຍານແກ່ການນີ້ ຜູ້ອັນນີ້ຂ້າງຫ້ານີ້ ຊຶ່ງໄກ້ຮັບມອນອ່ານາຈໂກບູກກົງຈາກ
ຮູບນາຄທີ່ພັນແຕ່ປ່າຍ ໄກລົງນັ້ນກວ່ານົກລອງນີ້

ທ່າງໆກັນເປັນສອງໝັ້ນ ດ ກຸງນິວເກລີ ເມື່ອວັນທີ່ເປັນສອງ ເກືອມມີງານຍານ
ກວ່າສັກສົກກາຮາທີ່ມີພັນເກົ້າຮ່ອຍເຈົ້າສົບແຜກ ເປັນພາສາໄທ ພາສາເີນຖຸ ແລະພາສາອັງກຸດ
ໃນກຣະທີ່ມີການຊັກກັນໄກ ຈະ ຮະຫວ່າງຕົວນີ້ ໃຫ້ດີອັນກວ່າພາຍັງກຸດເປັນສຳຄັງ

ສ໏າໜັບຮູບນາຄແໜ່ງຮາພອພາຈັກໄຫຍ

ສ໏າໜັບຮູບນາຄແໜ່ງສາຫະລົງຮູ່ອຸນເກີບ

(ທ່.ອຸປະກິດ ປ່າຈີ່ຍາງກູງ)

ຮູບນທີ່ວ່າການ

ກະຮຽນກວ່ານົກລອງ

(ນາຍອົກສ ປົມາຮີ ວັຈເປື້ອ)

ຮູບນທີ່ວ່າການ

ກະຮຽນກວ່ານົກລອງ

[HINDI TEXT — TEXTE HINDI]

धाईलैंड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच
अंडमान सागर में दोनों देशों के बीच समुद्रतल सीमा के
परिसीमन सम्बन्धी करार ।

धाईलैंड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार,

दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की
इच्छा से, और

अंडमान सागर में दोनों देशों के बीच समुद्रतल सीमा स्थापित करने
और उन क्षेत्रों की सीमा स्थायी रूप से तय करने की इच्छा से, जिनमें दोनों
देशों की सरकारें अपने अपने प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करेंगी,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद- ।
=====

1. अंडमान सागर में धाईलैंड और भारत के बीच की समुद्रतल सीमा
प्वाइट । और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6 तथा 6
और 7 को जोड़ने वाली सीधी रेखायें हैं ।

2. इन प्वाइटों के निरेशांक नीचे दिये गये हैं :

	<u>अक्षांश</u>	<u>रेखांश</u>
प्वाइट ।	$07^0 48' 00''$ उ०,	$95^0 32' 48''$ पू०
प्वाइट 2	$07^0 57' 30''$ उ०,	$95^0 41' 48''$ पू०

प्वाइंट 3	08^0	$09' 54''$	उ०,	95^0	$39' 16''$	प०
प्वाइंट 4	08^0	$13' 47''$	उ०,	95^0	$39' 11''$	प०
प्वाइंट 5	08^0	$45' 11''$	उ०,	95^0	$37' 42''$	प०
प्वाइंट 6	08^0	$48' 04''$	उ०,	95^0	$37' 40''$	प०
प्वाइंट 7	09^0	$17' 18''$	उ०,	95^0	$36' 31''$	प०

3. एक ओर थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया तथा दूसरी ओर थाईलैंड, भारत और बर्मा के बीच दोनों दिशाओं में त्रिसंगम बिंदुओं तक सीमा का विस्तार बाद में किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 2

1. अनुच्छेद 1 में बताये गये प्वाइंटों के निर्देशांक भौगोलिक निर्देशांक हैं और उनको जोड़ने वाली सीधी रेखायें इस करार से संलग्न अनुबंध ''क'' के चार्ट में दिखाई गयी हैं ।
2. समुद्र में इन प्वाइंटों और इन्हें जोड़ने वाली रेखाओं का वास्तविक स्थान दोनों सरकारों के सम्म प्राधिकारियों द्वारा किसी परस्पर सहमत तरीके से तय किया जायेगा ।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के प्रयोजन के लिये ''सम्म प्राधिकारी'' शब्द से थाईलैंड किंगडम के लिये चाओक्रोम उथोवासात (जल-सर्वेक्षण विभाग के निदेशक) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति और भारत गणराज्य के लिये भारत सरकार के प्रमुख जल-सर्वेक्षक और उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत होगा ।

अनुच्छेद- 3

थाईलैंड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार इस करार द्वारा स्थापित सीमाओं के अन्दर अवभूमि जहित समुद्रतल पर सम्बद्ध सरकारों के प्रभुत्व सम्बन्ध अधिकारों को मान्यता देती है और उन्हें स्वीकार करती है ।

अनुच्छेद- 4

यदि कोई भी भूतत्वीय पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैर संरचना अथवा क्षेत्र, अथवा किसी भी 'स्वरूप' का अन्य खनिज निष्केप अनुच्छेद । में ज्ञताई गई सीमा से बाहर चला जाता है तो दोनों सरकारें इस सम्बन्ध में एक दूसरी सरकार को समस्त जानकारी देंगी और एक तमज्जौते पर पहुँचने का प्रयत्न करेंगी कि संरचना, क्षेत्र अथवा निष्केप का सर्वाधिक प्रभावकारी उपयोग किस प्रकार किया जायेगा और इस प्रकार के उपयोग से होने वाले फ़रयदों का किस प्रकार समान रूप से बंटवारा किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 5

इस करार के निर्वचन अथवा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच किसी श्री विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से परामर्श अथवा बातचीत द्वारा तय किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 6
=====

इस करार का अनुसमर्थन दोनों देशों की अपनी-अपनी संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जायेगा । यह करार अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू हो जायेगा । अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र बैंगकाक में किया जायेगा ।

इसके साक्ष्य- स्वरूप, निम्नलिखित व्यक्तियों ने, जिन्हें इस कार्य के लिये अपनी-अपनी सरकारी दबारा विधिवत् प्राप्यिकृत किया गया है, इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं ।

नई दिल्ली में, अज ईस्टवी जन् सर हज़ार ना सौ अठहत्तर के जून मास के बाइसवें दिन थाई, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में, दो दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ । पाठ के सम्बन्ध में फिसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

थाईलैंड किंगडम की सरकार
की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से


(उपादित पचारिचान्गाकुन)

विदेश मन्त्री

अटल बिहारी वाजपेयी
(अटल विहारी वाजपेयी)

विदेश मन्त्री